


# शून्य डिग्री देशांतर रेखा



ग्रीनविच की प्रयोगशाला के पास से गुजरती शून्य डिग्री देशांतर रेखा रेखा से दाहिनी ओर पूर्वी गोलार्द्ध है तो रेखा के बायीं ओर पश्चिमी गोलार्द्ध है।

ग्रीनविच को चुनने के पीछे चाहे जो भी राजनैतिक कारण रहे हों लेकिन 16वीं सदी में ग्रीनविच वेधशाला की स्थापना ही देशांतर पता करने की विधियों को विकसित करने के लिए की गई थी। ग्रीनविच के चुनाव का एक अन्य कारण भी था — 1884 में दुनिया के समुद्रों में जितना भी यातायात था उसका लगभग तीन-चौथाई ग्रीनविच को शून्य डिग्री मानकर हो रहा था। जहाजों पर मौजूद नक्शे, तालिकाएं, घड़ियां ग्रीनविच को आधार मानकर बनाए गए थे। ऐसे में ग्रीनविच को शून्य डिग्री देशांतर रेखा मानना शायद एक व्यावहारिक कदम भी था।

आज ग्रीनविच की वेधशाला वहां से स्थानांतरित हो गई है, इमारत चारूर वहां खड़ी है और शून्य डिग्री की रेखा भी वहां मौजूद है। चित्र देखिए।

इस पृथ्वी पर विभिन्न भूभागों की अक्षांश -देशांश में स्थितियां तय करने के लिए दो मानक रेखाओं की जरूरत थी। एक जो धरती पर उत्तर-दक्षिण दिशा में मूल रेखा का काम कर सके। और दूसरी, जो पूर्व-पश्चिम में यह भूमिका निभा सके।

पहली भूमिका में तो भूमध्य रेखा को यह दर्जा मिले इस में कोई विवाद नहीं था, लेकिन शून्य डिग्री देशांतर रेखा तो कोई भी देशांतर हो सकती थी। ब्रिटेन ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को शून्य मानकर उसके आधार पर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की स्थितियां और समय की गणना करता था; तो फ्रांस और जर्मनी क्रमशः पेरिस और बर्लिन से गुजरने वाली देशांतर को शून्य मानकर गणनाएं करते थे।

एकरूपता के हिसाब से यह चारूरी था कि दुनिया के सभी देश किसी एक देशांतर पर अपनी आम राय कायम कर सके। इसके लिए 1884 में वाशिंगटन में एक बैठक हुई। इस बैठक में ग्रीनविच को शून्य डिग्री देशांतर रेखा मानने पर आम सहमति बनी।